

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 11 जून, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28/25/लेखा/उ0सं0अ0/2019-20(H) दिनांक 08.05.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-03-104-0504 के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 10000.00 हजार (रूपये एक करोड़ मात्र) को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त मद की धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन भी कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत है। अन्य मदों में कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. इस शासनादेश के संलग्नक को कम्प्यूटर आई0डी0 से जनरेट किया गया है, जिनकी अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-H19060110116 दिनांक 10 जून, 2019 है।

5. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 436 (1)/XLII-1/2019-02(01)2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।



IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
HOD-Director Sanskrit Education(4624)
Treasury-Haridwar(6500)
DDO-District Education Officer Haridwar(4506)

आवंटन पत्र संख्या -02(01)2019

आवंटन आई डी-H19060110116

अनुदान संख्या-011

आवंटन पत्र दिनांक-10-JUN-2019

लेखा शीर्षक

2202-सामान्य शिक्षा

03-University and Higher Education

104-अराजकीय कालेजों और

05-वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप

संस्थानों को सहायता

अधिष्ठान व्यय में वृद्धि

04-उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी को

Voted

सहायता अनुदान

| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
|-----------------------------------|---|---|---|----------------|------------------|---------------|---|----------|---|---|---|---|
| मानक मद का नाम | | | | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | | योग | | | | |
| 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | | | | 0 | 10000000 | 0 | | 10000000 | | | | |
| योग | | | | 0 | 10000000 | 0 | | 10000000 | | | | |

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,00,00,000 (Rupees One Crore Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(Signature)
श्रीरेन्द्र पाल सिंह
संयुक्त सचिव
संस्कृत शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन ।